

**नस्लीय समानता को बढ़ावा देने पर
मौजूदा और नियोजित उपाय
न्याय विभाग
(न्याय कार्यालय के सचिव सहित)**

कानून का शासन हमारे समुदाय का एक मुख्य मूल्य है। यह एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में हांगकांग की सफलता की आधारशिला भी है। न्याय विभाग हमारी कानूनी प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग सरकार के अन्य ब्यूरो और विभागों को कानूनी सलाह देता है, कानूनी कार्यवाही में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, सरकारी बिलों का ड्राफ्ट करता है, अभियोजन निर्णय लेता है, और कानून के शासन को बढ़ावा देता है। कानूनी सेवाओं और विवाद समाधान के लिए क्षेत्रीय केंद्र के रूप में हांगकांग की स्थिति को बढ़ाना विभाग का एक महत्वपूर्ण नीतिगत उद्देश्य है।

संबंधित सेवाएं

- जनता के सदस्य हमारे सामान्य पूछताछ हॉटलाइन, ईमेल, फैक्स और पोस्ट के माध्यम से हमारे विभाग से सामान्य पूछताछ / टिप्पणी कर सकते हैं।
- जनता और कानूनी पेशे के सदस्य सिविल डिविज़न और अभियोजन डिविज़न द्वारा नियंत्रित मामलों में अदालत के दस्तावेजों और अन्य पत्राचार संबंधित रिसेप्शन काउंटरों पर सर्व या जमा कर सकते हैं और श्रॉफ कार्यालय को भुगतान कर सकते हैं।

मौजूदा उपाय

- हमारी सेवाएं नस्लीयता के संबंध में तटस्थ हैं और चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में वितरित की जाती हैं। अनुवाद सेवा विदेशी भाषा(ओं) में आने वाले पत्राचार के लिए लिखित प्रतिक्रियाओं के लिए व्यवस्था की जाएगी जहां आवश्यक और उपयुक्त हो।

भविष्य के काम का आकलन

- विभिन्न नस्ल के लोगों की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से, जहां आवश्यक हो, हमारी सेवाओं की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी और सुधार किया जाएगा।
- विभिन्न नस्ल के लोगों द्वारा सेवाओं के उपयोग पर डेटा और आंकड़े (गैर-व्यक्तिगत डेटा) अन्य सेवाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एकत्र किए जाएंगे।

किए गए/किए जाने
वाले अतिरिक्त
उपाय

- सेंटर फॉर हार्मनी एंड एनहांसमेंट ऑफ एथनिक माइनोंरिटी रेजिडेंट्स (CHEER) के माध्यम से जहां आवश्यक और उपयुक्त हो, व्याख्या सेवा की व्यवस्था की जाएगी। CHEER आठ भाषाओं अर्थात् बहासा इंडोनेशिया, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, उर्दू, तगालोग, थाई और वियतनामी में टेलीफोन व्याख्या सेवाएं प्रदान करता है।
- हमारे कर्मचारियों को सेवाओं के प्रावधान में नस्लीय समानता की संवेदनशीलता और समझ बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उनके पास सेवा उपयोगकर्ताओं के साथ कुशलता से काम करने के लिए आवश्यक कौशल और तकनीक होगी।

नस्लीय समानता को बढ़ावा देने पर मौजूदा और नियोजित उपायों से संबंधित पूछताछ के लिए, कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से Mr Tommy SETO, वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (पशासिन और कर्मचारी संबंध) से संपर्क करें -

टेलीफोन नं. : 3702 4100
फैक्स नं. : 3702 0118
ईमेल : ad@doj.gov.hk

धियाय विभाग
जून 2024